

आर्किटेक्ट एवं वास्तुशास्त्रियों के सम्मेलन में बोले परिवहन मंत्री वीके सिंह

आबू रोड, 7 सितम्बर, निसं। भारत सरकार के परिवहन केन्द्रिय राज्यमंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो इस ख्याल से आया कि जब तक राजनीति में गैर राजनीति के लोग नहीं आयेगें तब तक समाज के लोगों को समझना मुश्किल है। इसलिए अच्छी राजनीति के लिए गैर राजनीति के लोगों का आना जरूरी है। वे ब्रह्माकुमारीज संस्था के मनमोहिनीवन स्थित ग्लोबल आडिटोरियम में आर्किटेक्ट तथा वास्तुशास्त्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अध्यात्म से सभी समस्याओं का समाधान सम्भव है चाहे वह राजनीति का हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र का। इसलिए जब इस परिवेश में प्रवेश करते हैं तो आध्यात्मिक उर्जा महसूस होने लगती है। यहाँ का वातावरण और परिवेश हमेशा लोगों को सशक्त करता है। आज के समय में राजनीति को लोगों के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्थान पूरे विश्व में एक अच्छा कार्य कर रहा है। लोगों के जीवन में उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है।

इस अवसर पर ब्रह्माकुमारीज संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि जब हमारे अपनत्व का भाव होगा तभी हमारे जीवन में समरसता और भाईचारा आयेगा। इसलिए जीवन में हमेशा मूल्यों को स्थान देना चाहिए। परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर मानवता की सेवा करने के लिए भेजा है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी आसुरी प्रवृत्तियों को स्थान नहीं देना चाहिए। कार्यक्रम में मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा ने कहा कि यहाँ परमात्मा की हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसलिए एक नयी दुनिया की रचना के लिए अपने जीवन में भी श्रेष्ठ रचना करनी है।

महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश जोन की निदेशिका बीके संतोष ने कहा कि हम सभी इस सृष्टि पर आत्मार्थ सब परमात्मा की संतान हैं। इसलिए मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए राजयोग का ध्यान जरूरी है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन में शांति और सुख की अनुभूति होती है।

इस मौके पर सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि विश्वकर्मा ग्रुप के लोगों में भी आध्यात्मिकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जायें जिससे कि आध्यात्मिक शक्ति से मानवीय मूल्यों का विकास हो। यह कार्यक्रम कई मायनों में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लायेगा। मुजफ्फरपुर सबजोन प्रभारी बीके रानी, बीके कीर्ति समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये।

पौधरोपण कर कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश: शांतिवन परिसर में वीके सिंह ने

पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर ब्रह्माकुमारीज संस्था के महासचिव बीके निर्वेर, बीके करुणा, बीके भरत समेत कई लोग उपस्थित थे।

Dear Divine Family,

Please accept greetings of love from BK Shivaleela behn and the divine family of Visakhapatnam.

We are very happy to share with you all that on the occasion of Scientists & Engineers Wing members visit to Visakhapatnam, two events were arranged under a common roof on 8 September, 2019 -

1. Launching of the Theme of the Year 2019 - God's Power for Golden Age
2. Seminar on "Engineering the SELF... the immediate need of the hour"

The Chief Guests who graced this occasion are:

Prof. PVGD Prasad, Vice-Chancellor, Andhra University and **Prof. K.Siva Rama Krishna, Vice-Chancellor, GITAM University**

The program began with a note by **Raja Yogi BK Mohan Singhal bhaiji** on the Brahma Kumaris Theme for the Year 2019. Gradually, festive atmosphere spread in the room as the launching program took off with a small celebration.

The theme of the seminar was explained by **Sis BK Anjali** from Hyderabad and guided meditation was conducted by **Sis BK Asmita** from Rajasthan. **Sis BK Shivaleela** explained the guests about the services of Brahma Kumaris at Visakhapatnam and inspired them to make meditation a part of their daily life.

Heartfelt thanks to Bapdada, Bhaiji and all the SEW members and guests who made it all possible.

On Godly Service,

BK Shivaleela behn.

maharanipeta.vsp@bkivv.org